



लखनऊ विश्वविद्यालय  
लखनऊ-226007 (उ.प्र.) भारत



University of Lucknow  
Lucknow-226007 (U.P.) India

परीक्षा नियंत्रक

Controller of Examinations

Ref.No. 176.....

Date 26/4/2026

सेवा में,

सम्बन्धित प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्राध्यक्ष-2025-26

सम्बन्धित सहयुक्त महाविद्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

विषय : सत्र-2025-26 की स्नातक सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सत्र 2025-26 की सम सेमेस्टर परीक्षाएं प्रातः 8.30 बजे से 10.00 तक एवं सायं पाली 02.00 बजे से 03.30 बजे तक घोषित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सम्पादित की जानी है। उक्त परीक्षाएं एम0सी0क्यू0 आधारित सम्पन्न करायी जायेगी:-

1. सूचना पट्ट पर परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक की सूची आसन व्यवस्था के साथ प्रदर्शित किया जाए। कक्ष निरीक्षक परीक्षा से 30 मिनट पूर्व कक्षों में अवश्य पहुँच जाए तथा उपस्थिति प्रपत्र आदि की कार्यवाही पूर्ण करते हुए छात्रों को परीक्षा प्रारम्भ होने से 15 मिनट पूर्व ओ0एम0आर0 एवं बुकलेट का वितरण सुनिश्चित करेंगे। जिससे विद्यार्थी समस्त प्रविष्टियां पूर्ण कर सकें ताकि वह समस्त निर्देश सावधानी पूर्वक पढ़ ले एवं ओ0एम0आर0 शीट पर प्रविष्टियाँ ब्लैक या ब्लू बाल प्वाइंट पेन से भरें। प्रश्न पुस्तिका जब तक कक्ष निरीक्षक द्वारा निर्देश न दिया जाय तब तक परीक्षार्थी ना खोले।
2. एम0सी0क्यू0 उत्तर पत्रक प्रयुक्त (Used) एवं अप्रयुक्त (Unused) के रूप में पृथक-पृथक सीलबंद की जाय तथा प्रयुक्त (Used) एम0सी0क्यू0 के लिफाफे के अन्दर उपस्थिति सीट (Attendance Sheet) की मूल प्रति अवश्य रखकर ही उसे बन्द किया जाय।
3. यह भी उल्लेखनीय है कि एम0सी0क्यू0 प्रश्न पुस्तिका (Booklet) भी विद्यार्थी से वापस प्राप्त कर प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त के रूप में पृथक-पृथक सील करके परीक्षा केन्द्र द्वारा नोडल केन्द्र पर जमा किया जाना है। नोडल केन्द्र से उक्त प्रश्न पुस्तिकाएं एवं ओ0एम0आर0 विश्वविद्यालय द्वारा संग्रहित की जायेगी। अतः एम0सी0क्यू0 प्रश्न पुस्तिका विद्यार्थी द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त अनिवार्य रूप से परीक्षा कक्ष में ही जमा की जायेगी। परीक्षा समापन के उपरान्त ही परीक्षार्थी को कक्ष छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाय।

उपरोक्त व्यवस्था का अक्षरशः अनुपालन सभी परीक्षा केन्द्रों पर सुनिश्चित किया जाय, इसका सम्पूर्ण दायित्व प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष का होगा। इसके साथ ही पूर्व में जारी निर्देशों के संगत प्रावधान यथावत् लागू होंगे।

परीक्षा के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

भवदीय,

(विद्यानन्द त्रिपाठी)

परीक्षा नियंत्रक

संलग्नक: यथोक्त।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव।
3. अधीक्षक परीक्षा संचालन (प्रातः एवं सायं पाली-2026)
4. कार्यालय प्रति।

परीक्षा नियंत्रक

लखनऊ विश्वविद्यालय



# लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

संख्या: लविवि/पनिका/—

दिनांक : 25.04.2026

## सेमेस्टर परीक्षाओं हेतु निर्देश-नियम

सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ दिनांक 28.04.2026 से प्रारम्भ हो रही हैं तथा विगत वर्षों की भौति विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन द्वारा उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जाना है। इस दिशा में केन्द्राध्यक्षों का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है कि यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है, ताकि परीक्षाफल समय से त्रुटिविहीन रूप से घोषित हो सकें।

नोट— सेमेस्टर परीक्षाओं के सभी कक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए ओ0एम0आर0 कवर युक्त उत्तर-पुस्तिकाओं का ही प्रयोग करें।

(क) केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/कक्ष-परिप्रेक्षक/आन्तरिक उड़ाका दल:

1. परीक्षाओं के संचालन हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी। केन्द्राध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य (स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में) अर्ह होंगे। प्राचार्य की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम शिक्षक केन्द्राध्यक्ष के रूप में नियुक्त होंगे। जिससे परीक्षा नियंत्रक को अवगत कराया जायेगा। राजकीय/वित्त पोषित महाविद्यालयों में प्राचार्य केन्द्राध्यक्ष होंगे तथा प्राचार्य महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक को केन्द्राध्यक्ष नामित कर सकते हैं, जिसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
2. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर एक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त होंगे, जो पूर्णतः परीक्षा के गोपनीय अभिलेखों को सुरक्षित रखने एवं परीक्षा के सफल संचालन के लिये उत्तरदायी होंगे।
3. सहायक केन्द्राध्यक्ष प्रतिदिन सम्पादित परीक्षा में पंजीकृत छात्रों की संख्या के आधार पर निम्नवत् नियुक्त होंगे—
  - (I) 250 पंजीकृत छात्रों पर एक
  - (II) 251-500 तक पंजीकृत छात्रों पर दो
  - (III) 501-750 तक पंजीकृत छात्रों पर तीन
  - (IV) 751-1500 तक पंजीकृत छात्रों पर चार
  - (V) 1501 से अधिक पंजीकृत पर 5 तथा इसके उपरान्त प्रत्येक 1000 की संख्या तक एक अतिरिक्त सहायक केन्द्राध्यक्ष नियुक्त होंगे।
4. प्रत्येक कक्ष में कम से कम दो कक्ष परिप्रेक्षक अवश्य हों। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि परीक्षा कार्य में बड़े कमरों का अधिकतम प्रयोग हो, जिससे कम से कम परिप्रेक्षकों की आवश्यकता पड़े और यह भी ध्यान रहे कि कुछ कक्ष परिप्रेक्षकों एवं कुल परीक्षार्थियों की संख्या का अनुपात 1 और 20 का ही रहे। प्रत्येक परीक्षार्थी हेतु 20 वर्गफुट का क्षेत्रफल निर्धारित है, विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था इसके अनुसार ही की जाय। सचल दल या गेट ड्यूटी के लिए शिक्षकों की नियुक्ति इस अनुपात से निर्धारित कक्ष परिप्रेक्षकों में से ही की जाय।
5. केन्द्राध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि परीक्षा जब चल रही हो उस बीच कोई भी परीक्षार्थी पुस्तक, नोट्स, मोबाइल, पेजर, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अथवा किसी भी प्रकार की अवैध सामग्री लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश न करने पाये। परीक्षार्थी से किसी सन्दर्भ में (प्रश्नपत्र मुद्रण की त्रुटि से सम्बन्धित क्यों न हो) कोई वार्ता कक्ष में न की जाय।
6. परीक्षा हेतु निम्नलिखित दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

(I) केन्द्राध्यक्ष

रु0 145-00 प्रति पाली।

(II) सहायक केन्द्राध्यक्ष

रु0 130-00 प्रति पाली।

(III) कक्ष परिप्रेक्षक आवश्यकतानुसार (आन्तरिक उड़ाका दल, गेट ड्यूटी सहित) रु0 120-00 प्रति पाली।

7. केन्द्राध्यक्षों से यह भी अनुरोध है कि वे कृपया उत्तर-पुस्तिकाओं/प्रश्नपत्रों के रख-रखाव हेतु एक रजिस्टर रखें। यह जिम्मेदारी जिस किसी सहायक केन्द्राध्यक्ष को सौंपी जाय, उन्हें लिखित निर्देश दिये जाये कि वह उत्तर पुस्तिकाओं/प्रश्नपत्रों की प्राप्ति और उपयोग को प्रतिदिन रजिस्टर पर अंकित करते रहें। केन्द्र व्यय का रख-रखाव एक पृथक रजिस्टर/प्रपत्र पर किया जाय, जिसमें अग्रिम और नित्य के व्यय का विवरण अंकित किया जाय। इन रजिस्ट्रों का निरीक्षण भी समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है।
8. इस वर्ष भी विगत वर्षों की भाँति विश्वविद्यालय ने परीक्षकों से केन्द्रीय पद्धति से मूल्यांकन कराने की योजना निर्धारित की है। इसलिए उत्तर पुस्तिका समय से भेजने में केन्द्राध्यक्षों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। योजना बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि कक्ष निरीक्षण कार्य केन्द्रीय मूल्यांकन के कारण यथासम्भव प्रभावित न हो।
9. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में महाविद्यालय के प्रबन्धक/अध्यक्ष केन्द्र पर उपस्थित नहीं रहेंगे। उनकी उपस्थिति प्रमाणित होने पर केन्द्र को संदिग्ध श्रेणी में अंकित कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
10. कृपया निर्देश-नियम से सभी सम्बन्धित को अवगत करा दें, जो आपको परीक्षा संचालन में सहायता कर रहे हैं। यदि ऐसी अवस्था आ जाय, जिससे नियम स्पष्ट न हो तो दूरभाष पर वार्ता करके तदनुसार कार्यवाही करें।

(ख) विशेष परीक्षार्थी/विशेष सुविधा

11. किसी भी ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति न दें, जिसे अनुक्रमांक आवंटित न हुआ हो तथा जिसका जाँच पत्र आपके पास न भेजा गया हो। यदि न्यायालय के आदेश से कोई परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होता है तो उस छात्र की उत्तरपुस्तिका को पूर्ण विवरण तथा एक प्रश्नपत्र के साथ परीक्षा नियंत्रक को पृथक से भेजें। किसी परीक्षार्थी की परीक्षा जेल अथवा अस्पताल में नहीं कराई जा सकती है। जब तक ऐसा करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं निर्गत किये गये हो।

(ग) परीक्षा भवन/कक्ष/आसन व्यवस्था

12. परीक्षार्थियों के सीट (आसन) की व्यवस्था ऐसी करायेँ जिससे उन्हें अनुचित साधन प्रयोग करने का अवसर न प्राप्त हो सके। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करें:-
  - i. सभी परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0टी0वी0 (वाइस रिकार्डर सहित) मेन गेट, परीक्षा संचालन कक्ष, बरामदों एवं परीक्षा कक्षों में अनिवार्य रूप से लगे हो, जिनकी रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जाय एवं परीक्षा समाप्त होने के उपरान्त एक पेन ड्राइव में सम्पूर्ण परीक्षा अवधि की रिकार्डिंग विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।
  - ii. यदि सम्भव हो तो एक विषय के परीक्षार्थी के आगे तथा पीछे तथा बगल में उस विषय के परीक्षार्थी की सीट न रहें।
  - iii. कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक परीक्षार्थी की सीट पर परीक्षार्थी के अनुक्रमांक आदि का विवरण, पानी पिलाने आदि की समुचित व्यवस्था केन्द्र पर होनी चाहिए। स्वच्छ एवं शीतल जल की उपलब्धता, कमरे की सफाई और प्रकाश आदि पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(घ) प्रश्नपत्र पैकेट का रख-रखाव

13. सम्पूर्ण परीक्षाकाल में केन्द्राध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्र पर कोई न कोई अधिकृत व्यक्ति अनवरत रूप से अवश्य उपस्थित रहे। आपसे अनुरोध है कि प्रश्नपत्रों के लिफाफे की जाँच सतर्कतापूर्वक कर लें और यदि किसी लिफाफे की सील टूटी हुई हो अथवा अन्य किसी भी प्रकार का सन्देह लिफाफे के सम्बन्ध में हो तो तत्काल उसकी सूचना दें तथा उस लिफाफे अथवा लिफाफों को दूसरे लिफाफे में रखकर अपनी सील लगा दें। अभ्यर्थियों के जाँच-पत्र से प्रश्नपत्रों की संख्या का मिलान कर लें, यदि किसी प्रश्नपत्र की आवश्यकता हो तो उसकी मांग तुरन्त करने का कष्ट करें। प्रश्नपत्रों के पैकेटों को विशेष सावधानी के साथ बन्द एवं सुरक्षित अलमारी में रखा जाय, जिसकी चाभी केन्द्राध्यक्ष के पास रहे।

(ङ) उत्तर पुस्तिका पर मुहर लगाना/वितरण

14. केवल ओ0एम0आर0 उत्तरपुस्तिका का ही प्रयोग करें। उत्तरपुस्तिका पर नाम का मुहर या अन्य चिन्ह न लगवायें। केवल दिनांक की मुहर निर्धारित स्थान पर ही लगायी जाय। केन्द्राध्यक्ष को चाहिए कि किसी उत्तर पुस्तिका पर अपने हस्ताक्षर की सील इत्यादि न लगायें।
15. विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त परीक्षाओं की क्रमांकित उत्तर पुस्तिकाओं को प्रतिदिन प्रति पाली के क्रमानुसार ही प्रत्येक कक्ष में भेजना है। उत्तर पुस्तिका का विवरण भी परीक्षार्थियों को क्रमानुसार ही करना है। यदि किसी कारण से किसी क्रमांक की उत्तर पुस्तिका को निरस्त करना पड़े तो कारणों का उल्लेख करते हुए निरस्त उत्तरपुस्तिका को परीक्षा नियंत्रक के पास सीलबन्द लिफाफे में भेज दिया जाय।

16. (क) परीक्षा केन्द्र प्रति दिन परीक्षा प्रारम्भ होने के 45 मिनट पूर्व खोला जाय।

(ख) नकल अध्यादेश-2008 (यथा संशोधित) में निहित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाय और नकल विहीन परीक्षा कराई जाय। परीक्षाकाल में परीक्षा योग्य वातावरण बनाकर प्रचार्य/केन्द्राध्यक्ष हर सम्भव प्रयास कर केन्द्र पर नकलविहीन परीक्षा संचालन सुनिश्चित करें।

(ग) परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा पहले से ही सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारी एवं उस पाली के परीक्षार्थियों के अलावा अन्य कोई छात्र या व्यक्ति केन्द्र परिसर में न रहे। इस निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। प्रत्येक पाली में परीक्षार्थियों की समुचित तलाशी गेट पर लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाय और परीक्षा कक्षों में कम से कम प्रथम घण्टे के अन्दर दो बार यह घोषित किया जाये कि "नकल करते हुए यदि कोई छात्र पकड़ा गया तो उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं है, अतः नकल करने का प्रयास कदापि न करें।"

(घ) परीक्षा के दौरान नकल की रोकथाम करना केन्द्राध्यक्षों की नैतिक एवं विधिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में उनको ही नेतृत्व करना है। परीक्षा को नकलविहीन आयोजित कराने हेतु केन्द्राध्यक्ष अपने स्तर से आन्तरिक उड़ाकादल के साथ अपने केन्द्र पर प्रत्येक पाली में कम से कम दो चक्कर अवश्य लगायें और केन्द्र को नकल विहीन बनाने में अग्रणी बनें।

(ङ) परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा भवन में कोई लिखी पर्ची, पुस्तकें, नोट्स, मोबाइल व कैलकुलेटर न लाने पायें। परीक्षार्थी प्रश्नपत्रों के प्राप्त होने के पूर्व अपने डेस्क भी देख लें कि उसके अन्दर कोई अवैध सामग्री न रहे। यदि कोई ऐसी सामग्री परीक्षार्थी के पास पायी जायेगी तो उसका अर्थ यह समझा जायेगा कि वह नकल कर रहा था अथवा करने का प्रयास कर रहा था। परिप्रेक्षक प्रतिदिन प्रश्नपत्रों के वितरण के पूर्व परीक्षार्थियों को इस सन्दर्भ में सतर्क कर दें।

- (च) परीक्षा जब तक चल रही हो, उस बीच कोई भी परीक्षार्थी पुस्तक, नोट्स अथवा किसी प्रकार की अवैध सामग्री लेकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश न करने पाये। परीक्षार्थी से किसी भी सन्दर्भ में (चाहें प्रश्न पत्र में मुद्रण की त्रुटि आदि से सम्बन्धित ही क्यों न हो) कोई वार्ता कक्ष में न की जाय।
- (छ) केन्द्र पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत उड़ाकादल के पहुँचने पर उनका सहयोग किया जाय और सफल परीक्षा संचालन में उनसे सहयोग लिया जाय।
17. सामान्यतया परीक्षा शुरू हो जाने पर किसी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में आने की अनुमति प्रदान न की जाय, परन्तु विशेष परिस्थिति में 30 मिनट तक विलम्ब से आने पर परीक्षार्थी को प्रवेश कराने का अधिकार केन्द्राध्यक्ष को है। किसी भी दशा आधा घण्टा से अधिक विलम्ब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश न दिया जाय।
  18. यदि कोई परीक्षार्थी बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है और परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध जॉच पत्र में उसका विवरण है एवं आप संतुष्ट हैं कि वह वास्तव में सही परीक्षार्थी है तो आप उस दिन की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।
  19. विशेष परिस्थितियों में परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष से कुछ समय के लिए बाहर जाने के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है, परन्तु प्रत्येक दशा में कक्ष परिप्रेक्षक के साथ ही उन्हें बाहर जाने दिया जाय।
  20. प्रश्नपत्र वितरण हो जाने पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्त होने से पूर्व परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति न दी जाय।
  21. परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के नियंत्रण में रहेंगे और परीक्षार्थियों का कर्तव्य होगा कि केन्द्राध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत परिप्रेक्षकों के प्रत्येक निर्देश का पालन करें। यदि कोई परीक्षार्थी निर्देश की अवहेलना अथवा अभद्र व्यवहार करेगा तो केन्द्राध्यक्ष को अधिकार है कि उस परीक्षार्थी को परीक्षा से बहिष्कृत कर सकते हैं। ऐसे विषयों की पूरी रिपोर्ट सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ विश्वविद्यालय को भेजना आवश्यक है, जिसके आधार पर परीक्षार्थी के विरुद्ध उसकी परीक्षा रद्द करने अथवा अन्य आवश्यक कार्यवाही जो भी उचित होगी, परीक्षा समिति के निर्णयानुसार की जायेगी।
  22. अगर कोई परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका को साथ लेकर भाग जाता है तो उसकी एफ0आई0आर0 पास के थाने में दर्ज करा दें तथा उसकी एक प्रति परीक्षा नियंत्रक को भी भेजें। परीक्षार्थी का नाम, पता, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, तिथि पाली तथा सम्बन्धित प्रश्नपत्र का विवरण "एफ0आई0आर0" में अवश्य लिखें।
  23. यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधन प्रयोग/प्रयास करता हुआ पकड़ा जाय तो ऐसे परीक्षार्थी को दूसरी उत्तर पुस्तिका देकर प्रश्नों को हल करने एवं परीक्षा देने दिया जाय तथा उपस्थिति पंजिका पर अनिवार्य रूप से यू0एफ0एम0 अंकित किया जाय। उत्तर पुस्तिकाओं पर निम्नवत् मुहर लगायी जाय—
    - (क) अनुचित साधन प्रयोग (पहली उत्तर पुस्तिका पर)
    - (ख) नवीन उत्तर पुस्तिका (दूसरी उत्तर पुस्तिका पर)
 तथा उसकी उत्तर पुस्तिका के साथ उसका वक्तव्य कक्ष निरीक्षक तथा केन्द्राध्यक्ष रिपोर्ट के साथ अवैध सामग्री जिस पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर तथा केन्द्र की मुहर लगी हो, सीलबन्द करके पृथक पैकेट में भेजी जाय।
 

(च) प्रश्नपत्र खोलना/वितरण
  24. प्रश्नपत्रों के लिफाफे खोलने में अनावश्यक जल्दबाजी न करें। प्रश्नपत्र खोलने से पूर्व यह भली-भाँति सुनिश्चित कर लें कि उसी दिन/सत्र में होने वाला प्रश्नपत्र ही खोला जा रहा है। यदि केन्द्र की गलती से कोई अन्य प्रश्नपत्र का पैकेट खुल जाता है और उस प्रश्नपत्र

की परीक्षा निरस्त होती है तो उसे पुनः सम्पन्न कराने में आने वाला सम्पूर्ण व्यय उस केन्द्र को वहन करना होगा।

25. प्रश्नपत्रों के लिफाफे, परीक्षा भवन के कक्ष में, कम से कम दो परिप्रेक्षकों के समक्ष खोले जाय। आप तथा साक्षी परिप्रेक्षक अपने स्पष्ट हस्ताक्षर, पद के साथ, लिफाफे पर निर्दिष्ट स्थान पर करने का कष्ट करें। इस बात का ध्यान रखें कि लिफाफे की सील अन्त तक न टूटे।

आपसे अनुरोध है कि प्रश्नपत्र के विवरण के पूर्व लिफाफे के प्रश्नपत्रों की गिनती करके देख लें कि उसकी संख्या उतनी ही है, जितनी लिफाफे के ऊपर अंकित है तथा प्रश्नपत्र को पढ़कर देख लें कि यह वही प्रश्नपत्र है। विसंगति मिलने पर परीक्षा नियंत्रक को सूचित करें।

26. कृपया प्रश्नपत्रों के वितरण होने के बाद परिप्रेक्षकों के माध्यम से निश्चित कर लें कि सभी परीक्षार्थियों को सही प्रश्नपत्र प्राप्त हो गये हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है।

### (छ) कक्ष परिप्रेक्षण कार्य

27. सभी कक्ष निरीक्षक परीक्षा प्रारम्भ होने वाले प्रथम दिन परीक्षा स्थल पर परीक्षा प्रारम्भ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित हो जायेंगे।
28. परीक्षार्थियों को निर्देश दिया जाय कि निर्धारित स्थल के अतिरिक्त कहीं भी अपना अनुक्रमांक तथा पहचान का कोई चिन्ह इत्यादि न अंकित करें।
29. केन्द्राध्यक्षों से अनुरोध है कि प्रत्येक कक्ष परिप्रेक्षक को प्रतिदिन प्रति पाली में स्मरण करा दिया करें कि प्रवेश पत्र पर अंकित रोल नम्बर का मिलान उत्तर पुस्तिका पर अंकित रोल नम्बर से करके ही कक्ष परिप्रेक्षक अपने हस्ताक्षर करें। यह अत्यन्त आवश्यक बिन्दु है, क्योंकि कुछ परीक्षार्थी प्रायः नम्बर एवं अन्य विवरण अपनी उत्तर पुस्तिका पर गलत लिख जाते हैं और कक्ष परिप्रेक्षक बिना जाँच किये अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, जिससे परीक्षाफल घोषित किये जाने में छात्रों एवं विश्वविद्यालय को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परीक्षार्थी ने शुद्ध अनुक्रमांक लिखा है इसकी जाँच करके कक्ष परिप्रेक्षक प्रत्येक उत्तरपुस्तिका पर हस्ताक्षर करें। उसी समय परीक्षार्थी के हस्ताक्षर कराकर कक्ष परिप्रेक्षक हस्ताक्षर करें ताकि किसी उत्तरपुस्तिका पर और तत्सम्बन्धित जाँच पत्र पर एक ही कक्ष परिप्रेक्षक के हस्ताक्षर रहें। कक्ष परिप्रेक्षक के हस्ताक्षर से रहित उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
30. केन्द्राध्यक्ष से अनुरोध है कि इस तथ्य को बार-बार देखते रहें कि परीक्षा के समय परिप्रेक्षकगण निरीक्षण सम्बन्धित कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य (जैसे समाचार पत्र का पढ़ना अथवा कार्यालय का पत्र व्यवहार आदि) न करें।
31. परीक्षार्थियों के जाँच पत्र, जो आपके केन्द्र से परीक्षा देगे, भेजे जा रहे हैं। कृपया उक्त जाँच पत्र परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर कराने तथा उनके छायाचित्र को मिलान की व्यवस्था करें। परीक्षार्थी का हस्ताक्षर कक्ष परिप्रेक्षक जिसके सम्मुख हस्ताक्षर हुआ है, द्वारा सत्यापित होना अत्यन्त आवश्यक है। परिप्रेक्षकों को सतर्क रखें कि द्वितीय हस्ताक्षर तथा फोटो का मिलान करते समय विशेष सतर्कता बरतें, जिससे कि वह निश्चित हो कि सही व्यक्ति परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है। परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षार्थियों के जाँच पत्र व्यवस्थित कराकर विशेष वाहक द्वारा भेज दें। कृपया पैकेट के ऊपर जाँच पत्र अंकित कर दें।
32. परीक्षाकाल में घण्टे बजने का कार्यक्रम निम्नलिखित होगा—  
एम0सी0क्यू0 प्रश्न पत्रों के लिए:  
1. आधे घंटे की समाप्ति पर 2 घंटे बजेगें।  
2. एक घंटे की समाप्ति पर 3 घंटे बजेगें।

3. परीक्षा समाप्ति के 10 मिनट पूर्व एक घंटा बजेगा, जिसे सुनकर कक्ष निरीक्षक परीक्षार्थी को 10 मिनट शेष रह जाने की सूचना देंगे। अतः परीक्षार्थी अपनी ओ0एम0आर0 पर की गयी प्रविष्टियों की जाँच कर लेंगे।

### 2 घण्टे के प्रश्नपत्रों हेतु।

- (क) परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व कुछ मिनट तक अनवरत ध्वनि से संयुक्त घन्टा बजाया जायेगा। उस घन्टे को सुनकर कक्ष निरीक्षक परीक्षाकक्ष में पहुंचकर परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों को देखेंगे तथा उन्हें उत्तरपुस्तिका देंगे।
- (ख) परीक्षा प्रारम्भ के समय से 10 मिनट पूर्व एक घन्टा बजेगा जिसका अर्थ होगा अब प्रश्नपत्र बांट दिये जायें।
- (ग) पहले घण्टे की समाप्ति पर दो घण्टे बजेंगे।
- (घ) दूसरे घण्टे की समाप्ति से 10 मिनट पूर्व एक घन्टा बजेगा, जिसको सुनकर परीक्षार्थी को सूचना देंगे कि अब केवल 10 मिनट अवशेष हैं। अतः परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिकाओं के मुख्य पृष्ठों पर की हुई आपूर्तियों को जांच लें।

### 3 घण्टे के प्रश्नपत्रों हेतु।

- (क) परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व कुछ मिनट तक अनवरत ध्वनि से संयुक्त घन्टा बजाया जायेगा। उस घन्टे को सुनकर कक्ष निरीक्षक परीक्षाकक्ष में पहुंचकर परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्रों को देखेंगे तथा उन्हें उत्तरपुस्तिका देंगे।
- (ख) परीक्षा प्रारम्भ के समय से 5 मिनट पूर्व एक घन्टा बजेगा जिसका अर्थ होगा अब प्रश्नपत्र बांट दिये जायें।
- (ग) पहले घण्टे की समाप्ति पर दो घण्टे बजेंगे।
- (घ) दूसरे घण्टे की समाप्ति पर तीन घण्टे बजेंगे।
- (ङ) तीसरे घण्टे की समाप्ति से 10 मिनट पूर्व एक घन्टा बजेगा, जिसको सुनकर परीक्षार्थी को सूचना देंगे कि अब केवल 10 मिनट अवशेष हैं। अतः परीक्षार्थी अपनी उत्तरपुस्तिकाओं के मुख्य पृष्ठों पर की हुई आपूर्तियों को जांच लें।
- 32 (क) स्नातक परीक्षा हेतु 32 पृष्ठों की उत्तर पुस्तिकाओं एवं परास्नातक हेतु 40 पृष्ठ की उत्तर पुस्तिकायें प्रयोग की जानी है।

### (ज) उत्तर पुस्तिकाओं का संकलन/पैकेट बनाना/हस्तान्तरण

33. कक्ष परिप्रेक्षक से प्रयुक्त उत्तरपुस्तिका वापस लेते समय/उत्तरपुस्तिका के पैकेट बनाते समय सावधानी आवश्यक है, ताकि भिन्न विषयों/प्रश्नपत्रों की उत्तरपुस्तिका एक ही पैकेट में न जाने पायें व इस कार्य में विशेष तत्परता एवं सतर्कता बरतने का कष्ट करें अन्यथा उस परीक्षार्थी के परीक्षाफल के प्रकाशन में गम्भीर व्यवधान उपस्थित हो सकता है। प्रत्येक प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिकाओं को अलग पहले कागज में लपेट कर सुतली से बंधवा कर सील करायें। तत्पश्चात् नवीन मारकीन के कपड़े में सिलवाकर पुनः सील करायें। उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल में प्रश्नपत्र की दो प्रति अवश्य रखें।
34. परीक्षा समापन के उपरान्त प्रत्येक कक्ष की उत्तर पुस्तिकाएं कम से व्यवस्थित करके पृथक-पृथक लिफाफे में रूम डाकेट फार्म सम्यक रूप से पूर्ण कर मूल उपस्थिति शीट (अनिवार्य) के साथ सील कर दें। तत्पश्चात् सभी लिफाफों को विषयवार अलग-अलग सम्यक रूप से बाँधकर सील करके इस पर डाकेट स्लिप फार्म लगा दिया जाय। विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये डेली अब्सेन्टी स्टेटमेन्ट को पूर्ण रूप से भरकर उसे सक्षम स्थान/व्यक्ति को प्राप्त करा दें।
35. परीक्षा समाप्त होने के आधे घण्टे के अन्दर ही समस्त प्रयुक्त उत्तरपुस्तिकाओं को उस दिन उपस्थित चार वरिष्ठ कक्ष परिप्रेक्षकों की उपस्थिति में सीलबंद किया जाय। इस आशय के

प्रमाण की दो प्रतियाँ तैयार की जाय कि **उत्तरपुस्तिकाओं को हम लोगों के सामने सीलबंद किया गया।** इसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें तथा दूसरी प्रति सीलबंद लिफाफे में परीक्षा नियंत्रक के पास परीक्षा के अन्त में भेज दिया जाय। प्रमाण पत्र पर केन्द्राध्यक्ष, समस्त सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं चार वरिष्ठ कक्ष परिप्रेक्षकों के हस्ताक्षर, दिनांक एवं समय अंकित हों। अटेन्डेंस भी उत्तर पुस्तिकाओं के साथ ही सील करायें।

36. बैक पेपर/अंक सुधार की उत्तरपुस्तिका का पैकेट अलग न बनाया जाय, उसे मुख्य बण्डल के साथ ही भेजा जाय।
37. यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर दो या अधिक महाविद्यालयों के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहें हैं तो उनकी उत्तरपुस्तिका के पैकेट प्रत्येक दशा में अलग-अलग बनाये जायेंगे। इस तथ्य को पैकेट पर आगे '/' का चिन्ह लगाकर अंक लिखकर सूचित किया जायेगा। उदाहरणार्थ तीन महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र पर संयुक्त है तो अलग-अलग पैकेट पर के0/1, के0/2, के0/3 लिखा जायेगा।
38. यू0एफ0एम0 और यू0सी0ओ0 (अण्डर कोर्ट आर्डर) की उत्तरपुस्तिकाएँ अनिवार्य रूप से अलग पैकेट में सील की जायें एवं पैकेट पर तत्सम्बन्धी विवरण अंकित कर विश्वविद्यालय को वाहक द्वारा भेजवाया जाय।
39. पैकेट पर अधोलिखित प्रारूप के विवरण के अतिरिक्त कुछ न लिखा जाय। कोई संकेत, मुहर या चिन्ह न बनाया जाय।

यदि एक संकेतांक में एक ही पैकेट बना है तो उत्तरपुस्तिका संख्या के नीचे 'केवल एक' अंकित किया जाय। यदि एक संकेतांक में दो या अधिक पैकेट बनाये गये हैं। तो उत्तरपुस्तिका संख्या के नीचे रोमन अंकों में क्रमांक I, II, III आदि लिखा जाय।	परीक्षा ..... विषय/प्रश्नपत्र ..... दिनांक/सत्र ..... संकेतांक ..... केन्द्र कोड ..... उ0पु0 संख्या ..... पैकेट क्रमांक .....	यदि पैकेट अनुचित साधन प्रयोग या न्यायालय आदेश का है तो ये शब्द उत्तरपुस्तिका संख्या के नीचे अंकित किया जाय।
--	---	---

**(झ) परीक्षा केन्द्र पर अंतिम दिवस की परीक्षा समाप्त हो जाने पर—**

40. परीक्षा समाप्त होने पर शेष अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाएं, बचे हुए प्रश्नपत्र, प्रश्नपत्रों के लिफाफे एवं अन्य प्रपत्र विश्वविद्यालय के अधिकृत वाहक द्वारा वापस किये जाय।
41. परीक्षा समाप्त होने पर परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट भेजें, जिससे इसे परीक्षा समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके।
42. सभी कक्ष निरीक्षकों को निर्देशित कर सुनिश्चित कर लें, कि परीक्षा प्रारम्भ होने से उपरान्त कोई भी परीक्षार्थी दो घंटों की परीक्षा में 1.45 घण्टें से पूर्व परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ेगा, एवं 3 घण्टे की परीक्षा में 2.45 घण्टे के पूर्व उन्हें अनुमति देने से पूर्व प्रश्न पत्र जमा करा लिया जायें तथा उस पर सम्बन्धित परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकित कर लिया जाय।
43. परीक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व प्रत्येक दशा में परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा यह जाँच लिया जाय कि विश्वविद्यालय से सभी प्रश्न पत्र प्राप्त हो गये हैं यदि नहीं तो उससे तत्काल परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
44. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में प्रबन्ध तंत्र का कोई सदस्य परीक्षा केन्द्र पर उपस्थिति नहीं हों, इसे भी सुनिश्चित कर लिया जायें।
45. आपके परीक्षा केन्द्र पर जिन सहयुक्त महाविद्यालय का परीक्षा केन्द्र निर्धारित किया गया है वहाँ के सम्मानित शिक्षकों को उनके परीक्षार्थियों के परीक्षा कक्ष में निरीक्षण कार्यों हेतु योजित नहीं किया जाय।

## नोडल केन्द्र हेतु निर्देश

1. नोडल केन्द्र पर एक स्ट्रांग रूम होगा, जिसमें 24 घट्टे संचालित CCTV निगरानी प्रणाली सक्रिय रहेगी। तथा webcasting के माध्यम से विश्वविद्यालय के नियंत्रण कक्ष से जुड़ा रहेगा।
2. परीक्षाओं से सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्डिंग सुरक्षित रखी जायेगी एवं परीक्षाओं की समाप्ति के उपरान्त विश्वविद्यालय को एक पेन ड्राइव में उपलब्ध करायी जायेगी।
3. स्ट्रांग रूम में अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा।
4. स्ट्रांग रूम का द्वार नोडल सेन्टर प्रभारी/पर्यवेक्षक की उपस्थिति में सील किया जायेगा तथा उक्त अधिकारियों की उपस्थिति में खोला जायेगा। इस हेतु एक पंजिका रखी जायेगी, जिस पर उपस्थित कर्मियों के हस्ताक्षर होंगे और स्ट्रांग रूम की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण दर्ज किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व नोडल केन्द्र प्रभारी का होगा।
5. विश्वविद्यालय से नोडल केन्द्र से जुड़े परीक्षा केन्द्रों के प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकायें नोडल केन्द्र को परीक्षा के एक दिन/दो दिन पूर्व उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी प्राप्ति नोडल केन्द्र प्रभारी द्वारा देय होगी।
6. परीक्षा सामग्री प्राप्त होते ही नोडल केन्द्र प्रभारी द्वारा उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाया जायेगा तथा परीक्षा नियमानुसार कक्ष को सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति में सील किया जायेगा।
7. परीक्षा तिथि पर स्ट्रांग रूम यथासमय सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति में खोला जायेगा तथा परीक्षा केन्द्र के प्रभारी को सम्यक परीक्षा सामग्री प्राप्त करायी जायेगी।
8. नोडल केन्द्र परीक्षा की अवधि में निरंतर कार्यशील रहेगा तथा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षा केन्द्रों से उत्तर पुस्तिकायें प्राप्त होने पर उनका संकलन कर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को प्राप्त कराया जायेगा।
9. प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं को स्ट्रांग रूम में पृथक से संकलित किया जायेगा तथा संकलन पूर्ण होने पर संपूर्ण जानकारी विश्वविद्यालय को तत्काल प्रेषित की जायेगी।
10. नोडल केन्द्र प्रातः परीक्षा प्रारम्भ के पूर्व से परीक्षा समाप्ति के उपरान्त सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों से प्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य अवशेष सामग्री की प्राप्ति तक कार्यशील रहेगा।
11. नोडल केन्द्र प्रभारी अपना whatsapp no. विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेगें, जिसके क्रम में निर्मित whatsapp group पर निरन्तर सूचनायें प्रेषित करेंगें।
12. प्रत्येक नोडल केन्द्र अपने से सम्बद्ध परीक्षा केन्द्रों का एक whatsapp group बनायेगें, जिस पर सम्यक सूचनाओं का निरन्तर आदान प्रदान सुनिश्चित करेंगें। जिससे प्रत्येक पाली के परीक्षार्थियों का स्टेटमेन्ट रहेगा।
13. नोडल केन्द्र प्रभारी विश्वविद्यालय के whatsapp group पर प्रत्येक पाली में शामिल अनुपस्थित एवं कुल संख्या का विवरण उपलब्ध करायेगें।

नोडल केन्द्र: नोडल केन्द्र पर एक नोडल केन्द्र प्रभारी एवं 2 सहायक नोडल केन्द्र प्रभारी होंगें। समूह ग के अधिकतम 3 एवं समूह घ के अधिकतम 4 कर्मचारी अनुमन्य होंगें।

जिनका निम्नानुसार भुगतान किया जाना प्रस्तावित है:

नोडल केन्द्र प्रभारी	145 प्रति पाली।
सहायक नोडल केन्द्र प्रभारी	130 प्रति पाली।
समूह ग	80 प्रति पाली।
समूह घ	60 प्रति पाली।

परीक्षा व्यय सम्बन्धी भुगतान :-

1. उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या-176/सत्तर-1-2019-15 (32)/91 दिनांक 09 मार्च 2019 के अनुपालन में प्रत्येक केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार प्रति परीक्षार्थी रू0 15.00 की दर से आकस्मिक व्यय हेतु धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके

त्वरित एवं समयांतर्गत भुगतान हेतु समस्त केन्द्राध्यक्ष, महाविद्यालय का खाता सम्बन्धी विवरण परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


2. कक्ष निरीक्षकों का भुगतान शासनादेश संख्या-176/सत्तर-1-2019-15 (32)/91 दिनांक 09 मार्च 2019 एवं माननीय राजभवन के आदेश संख्या ई-1704/जी0एस0 दिनांक 23 मार्च 2022 के अनुपालन में सीधे उनके द्वारा प्रदत्त बैंक खाते में किया जायेगा। इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक केन्द्र के परीक्षा लॉगिन पर लिंक उपलब्ध कराया जायेगा तथा केन्द्राध्यक्षों से अनुरोध है कि उस लिंक पर सम्बन्धित शिक्षकों के त्रुटिहीन विवरण भरवाना सुनिश्चित करें, जिससे भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो।

**विशेष:**

परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न विसंगतियों के उत्पन्न होने या उनके त्वरित समाधान हेतु विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति की सुविधा भी प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन की उपस्थिति ऑनलाइन परीक्षा केन्द्रों द्वारा पूर्ण की जानी है। इस प्रक्रिया का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, जिससे परीक्षा परिणाम शुद्ध एवं प्रभावी तरीके से घोषित किये जा सकें।

**नोट:** सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ मई एवं जून 2026 में संपादित की जा रही है। इस अवधि में परीक्षार्थियों को गर्मी से बचाव के विशेष उपाय किये जाय। सभी कक्षाओं में पर्याप्त प्रकाश एवं पंखों की व्यवस्था सुचारु रूप से की जाय। ठंडे पेयजल की सम्यक व्यवस्था प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर अनिवार्य रूप से की जाय। परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी चिकित्सकीय आपातकाल की स्थिति से सामना करने के लिये मेडिकल किट अवश्य रखी जाय तथा नजदीकी सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 से पूर्व से ही समन्वय स्थापित रखा जाय, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा न उत्पन्न हो। इन व्यवस्थाओं की सूचना परीक्षा के पूर्व परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 743/सत्तर-3-2025 दिनांक 03.04.2025 (संलग्न) का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


संलग्नक: उरोक्तानुसार।

  
(विद्या नन्द त्रिपाठी)  
परीक्षा नियंत्रक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव।
3. अधीक्षक, परीक्षा संचालन (प्रातः एवं सायं पाली 2026)।
4. उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय।
5. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय।

  
परीक्षा नियंत्रक  
लखनऊ विश्वविद्यालय